

सुखियां



ओडिशा के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति कल्पेश सत्येन्द्र झावेरी ने ओडिशा उच्च न्यायालय की नई वेबसाइट का उद्घाटन करते हुए

ओडिशा उच्च न्यायालय की वेबसाइट को नया रूप मिला।

ओडिशा के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति कल्पेश सत्येन्द्र झावेरी ने ओडिशा उच्च न्यायालय की नई वेबसाइट (<https://orissahighcourt.nic.in>) का उद्घाटन ओडिशा उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, माननीय अधिवक्ता जनरल, ओडिशा, ओडिशा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी, ओ.एस.यू एवं बार के सदस्यों की उपस्थिति में किया। वेबसाइट को नई तकनीक और उत्कृष्ट पद्धति के साथ एनआईसी द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है।

ओडिशा के नागरिक को पाउति मोबाइल ऐप के जरिए 5T का सेवा मिला ।




पाउति ऐप का Screenshot

ओडिशा सरकार की आवश्यकता के लिए, एन.आई.सी ने सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन भूमि राजस्व भुगतान के लिए एक नागरिक अनुकूल मोबाइल ऐप " पाउति " विकसित किया है। श्री नवीन पटनायक, माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा द्वारा, भुवनेश्वर के लोकसेवा भवन में, राज्य में 5 टी पहल के

तहत यह एप्लिकेशन लॉन्च किया गया । श्री सुदाम मरांडी, माननीय मंत्री, राजस्व और डीएम विभाग, मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार के अन्य सचिव और एन.आई.सी तथा ओडिशा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इससे पहले, माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा द्वारा 15 अगस्त 2019 को "ई-पाउति" पर आधारित वेब एप्लिकेशन लॉन्च किया जा चुका है।

NIC के ServicePlus द्वारा e-District पोर्टल को मजबूत किया गया ।



eDistrict का Screenshot

श्री नवीन पटनायक, माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के माननीय मंत्री डॉ. सुदाम मरांडी, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागों के अन्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति में, NIC के सर्विसप्लस फ्रेमवर्क का उपयोग करके विकसित किए गए eDistrict (<https://edistrict.odisha.gov.in>) पोर्टल का लॉन्च किया। निम्नलिखित ई-प्रमाणपत्र इस ई-जिला E -District पोर्टल में उपलब्ध हैं।

- निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- अभिभावकता प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र


ओडिशा राज्य केंद्र

यूनिट - IV, सचिवालय मार्ग,  
भुवनेश्वर - 751001  
दूरभाष: +91 - 674 - 25408438  
www.nic.in www.gov.in  
ई-मेल: sio-ori@nic.in

"If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed"

- Albert Einstein

MoKendrapada : एक ऐप जो शासन को उत्तरदायी बनाया ।



MoKendrapada ऐप का Screenshot

श्री समर्थ वर्मा, जिला कलेक्टर, केन्द्रापड़ा, ने ओडिशा राज्य के 5T पहल के तहत जिला प्रशासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप MoKendrapara लॉन्च किया। NIC, Kendrapada द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया यह मोबाइल ऐप, Google play store से डाउनलोड किया जा सकता है। MoKendrapara मोबाइल ऐप से, जिले के बारे में सभी मूलभूत जानकारी तथा ऑनलाइन प्रदान किए जा रहे सेवा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस और शिक्षकों, आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों तथा अन्य जिला अधिकारियों के अग्रिम छुट्टी विवरण सहित सारी सूचना प्राप्त कर सकता है।

.. आप कभी भी मुझे फोन पर बता सकते हैं...में महत्व को समझता हूँ...वास्तव में, हमारी सख्त नेटवर्क सुरक्षा नीति के चलते सभी महत्वपूर्ण ईमेल जंक में चला जाता है....

